


भा.कृ.अनु.प.- राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो, बेंगलूरु में 14 सितम्बर 2020 को "हिंदी सप्ताह" **आयोजन का उद्घाटन**

भा.कृ.अनु.प.- राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो, बेंगलूरु में "हिंदी सप्ताह" का आयोजन 14 सितम्बर, से 19 सितम्बर, 2020 तक मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 14 सितम्बर 2020 को "हिंदी सप्ताह" के उद्घाटन के अवसर पर ब्यूरो के निदेशक महोदय, डॉ. एन. भक्तवत्सलम और विभागाध्यक्षों ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम आरंभ किया, रा. कृ. की. सं. ब्यू., बेंगलूरु के सभी कर्मचारियों को "हिंदी सप्ताह" के आयोजन पर डॉ. एन. भक्तवत्सलम ने शुभकामनाएं दीं। निदेशक महोदय ने कहा कि आप सभी को मालूम ही है, कि भारत-वर्ष की संविधान सभा द्वारा हिंदी भाषा को 14 सितम्बर, 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था और देश के अधिकांश क्षेत्रों के वर्ग द्वारा बोली और समझी जाती है। राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ और व्यापक बनाने में भाषा सदैव से एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी रही है। हमारी जो भाषा होती वह केवल बोलचाल और काम-काज का माध्यम ही नहीं है बल्कि हमें एक सूत्र में बांधने का काम भी करती है। देश में आप कहीं भी जायें तो हम देखते हैं कि सभी क्षेत्रों में हिंदी समझने वाले मिल जाते हैं। राजभाषा हिंदी का प्रयोग एक संवैधानिक आवश्यकता है और यह प्रत्येक कर्मचारी का दायित्व है कि वे सरकारी कामकाज में इसका प्रयोग करें।

ब्यूरो के निदेशक महोदय, डॉ. एन. भक्तवत्सलम ने, रा. कृ. की. सं. ब्यू., बेंगलूरु के सभी कर्मचारियों से आग्रह किया कि "हिंदी सप्ताह" के दौरान आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों जैसेकि -आशुभाषण, हिंदी गायन, हिंदी निबंध लेखन, टिप्पण एवं ड्राफ्टिंग, आदि में सक्रिय रूप से भाग लें और कार्यक्रम को सफल बनाएँ।

इस कार्यक्रम में श्री सतेंद्र कुमार ने माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री, भारत सरकार श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के हिन्दी दिवस के शुभ अवसर पर ब्यूरो को प्राप्त संदेश को सभागार में कर्मचारियों को पढ़कर सुनाया गया।





राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो, बेंगलूरु में "हिंदी सप्ताह" आयोजन का उद्घाटन